



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 2005—फरवरी 11, 2005 (माघ 16, 1926)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 2005—FEBRUARY 11, 2005 (MAGHA 16, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं. ए-19014/5/01-प्रशा.-1--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा होने पर श्री पी. एस. मीणा, आई.ई.एस. (91), उपसचिव, संघ लोक सेवा आयोग को 31 दिसम्बर, 2004 (अपराह्न) से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

2. श्री पी. एस. मीणा को निदेश दिए जाते हैं कि वे अपने मूल संवर्ग अर्थात् वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को रिपोर्ट करें।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 7 जनवरी 2005

सं. पी-2519/प्रशा.-2--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में तथा स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन द्वारा श्री के. के. जाधव को, पी.आई.पी.

एम.ए.टी.ई., पांडिचेरी से कार्यभार से मुक्त किए जाने पर श्री जाधव ने 21.12.2004 (इक्कीस दिसम्बर, 2004) के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उपनिदेशक (परीक्षा सुधार) के पद का पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जनवरी 2005

सं. ओ.दो.-3570/2005-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्री डी. गौतम सवांग, भा.पु.से. (एपी : 86) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारम्भ में 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल का कार्यभार दिनांक 12.01.2005 (पूर्वाह्न) को सम्भाल लिया है।

जे. एन. रतन
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

वित्त मंत्रालय
बैंक नोट मुद्रणालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

देवास, दिनांक 11 जनवरी 2005

सं. बीएनपी/सी/44/98--श्री एस. के. दुबे, उप कार्य अभियन्ता, श्रेणी-I (यांत्रिकी), बैंक नोट मुद्रणालय, देवास को सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी) के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म.प्र.) में दिनांक 01.01.2005 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

सुमित सिन्हा
उप महाप्रबन्धक एवं विभागाध्यक्ष

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा) का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जनवरी 2005

सं. का.आ. सं. 125--इस कार्यालय के श्री सुरेश चन्द अग्रवाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी दिनांक 03.03.2005 पूर्वाह्न को भारत सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होंगे।

उनकी जन्म-तिथि 04.05.1948 और नियुक्ति की तिथि 21.12.1970 है।

ह./- अपठनीय
वरि. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 17 जनवरी 2005

सं. स्था. आ.सं. 51/प्रशासन-I-गोप-4-स.ले.अ./1177--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी (लेखा) को उनके सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक लेखा अधिकारी पद (ग्रुप-ख-राजपत्रित) 7,450-225-11,500 रुपये के वेतनमान पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

1. श्री प्रशांत कुमार नायक दिनांक 03.01.2005 (पूर्वाह्न)

2. सहायक लेखा अधिकारी वर्ग में की गई पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर आधारित है।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), कर्नाटक

बेंगलूर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

सं. ई.एस.-I/ए8/एओ/2004-05/236--प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) ने श्रीमती मीनाक्षी वी. के., सहायक लेखा अधिकारी (कर्मचारी कोड संख्या : 19751202) को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 31.12.2004 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

2. मूल नियमावली एफआर 22(I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. ई.एस.-I/ए8/2004-05/237--प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) ने, अगले आदेश तक, श्रीमती गीता वी. सुन्दरम, अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी कोड संख्या : 31780907) को सहायक लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर दिनांक 31.12.2004 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के दावों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, पदोन्नत किया है।

2. सहायक लेखा अधिकारी के वेतनमान पर उनका वेतन नियम एफआर 22(I)(ए)(1) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि के लिए वे परीक्षा पर रहेंगे।

3. एफआर 22(I)(ए)(1) के अनुसार उच्चतर श्रेणी में वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी होने से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प प्रकट करना होगा।

4. इन अधिकारी की चार्ज रिपोर्ट उनके शाखा अधिकारी द्वारा स्थापना-1 को भेजी।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 3 जनवरी 2005

सं. ई.एस.-I/ए8/2004-05/245--प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) ने, अगले आदेश तक, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को सहायक लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर दिनांक 03.01.2005 के पूर्वाह्न (अर्थात् पैनल साल 2005 की पहली दिन) से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के दावों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, पदोन्नत किया है :--

क्रम	नाम	कर्मचारी कोड सं.	अभ्युक्तियां
सं.	श्री/श्रीमती		
1.	ऑर्थर मनोकरन, जे.	19790705	--
2.	भुवनेश्वरी, आर.	19811102	--

2. सहायक लेखा अधिकारी के वेतनमान पर उनका वेतन नियम एफआर 22(I)(ए)(1) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि के लिए वे परीक्षा पर रहेंगे।

3. एफआर 22(I)(ए)(1) के अनुसार उच्चतर श्रेणी में वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी होने से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प प्रकट करना होगा।

4. उक्त अधिकारियों की चार्ज रिपोर्ट उनके शाखा अधिकारी द्वारा स्थापना-1 को भेजी।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. ई.एस.-I/ए8/एओ/2004-05/244--प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) ने श्रीमती परिमला, एस., सहायक लेखा अधिकारी (कर्मचारी कोड संख्या : 19700106) को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 03.01.2005 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

2. मूल नियमावली एफआर 22(I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 10 जनवरी 2005

कार्यालय आदेश

सं. डब्ल्यू.एम.-1/स्थापना/205--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी

ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्रीमती ईला चक्रवर्ती
2.	श्री अलोक चौधरी
3.	श्री बलाई चांद पाल
4.	श्री चंचल सेनगुप्ता

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीने के अंदर एफआर 22(ए)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पण्डा
उप महालेखाकार (लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.-I/स्था./206--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के दिनांक 01.12.2004 के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I, जो अभी हुगली रीवर ब्रिज कमिशनर कोलकाता के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके कनिष्ठ जैसा ठीक नीचे दर्शाया गया है के वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से प्रोफार्मा पदोन्नति मंजूर की जाती है :--

व्यक्ति का नाम जिसे प्रोफार्मा	ठीक निचले कनिष्ठ का नाम
पदोन्नति मंजूर की गई है	

श्री विश्वनाथ पाल-II श्री बलाई चांद पाल

"ठीक निचला नियम" के तहत पदोन्नति की मंजूरी के पहले की सभी शर्तें इस मामले में पूर्ण हैं और ऐसी घोषित की गई है कि श्री वी. पाल-II द्वारा धारण किए गए पद जो कि अभी प्रतिनियुक्ति पर हैं वह साधारण सेवा के लाइन से बाहर हैं।

पदोन्नति होने पर, उनका वेतन एफआर 22(I)(ए)(i) के तहत निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए वे अपना विकल्प इस कार्यालय आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं।

एस. ए. पण्डा
उप महालेखाकार (लेखा एवं वी.एल.सी.)

दिनांक 17 जनवरी 2005

कार्यालय आदेश

सं. डब्ल्यू.एम.-I/स्थापना/212--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री गौरव चन्द्र चटर्जी

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्दर एफआर 22(I)(ए)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पण्डा
उप महालेखाकार (लेखा)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2005

सं. ए-19018/1086/91-प्रशा. (राज.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री पी. एम. सोलंकी, उप निदेशक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 31.12.2004 (अपराह्न) को सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. ए-19018/370/78-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में अपर औद्योगिक सलाहकार (आधुनिकीकरण एवं सहायक उद्योग), श्री जे. के. आर्य को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में उक्त कार्यालय में औद्योगिक सलाहकार (आधुनिकीकरण एवं सहायक उद्योग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 14.01.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

कोयला एवं खान मंत्रालय

(खान विभाग)

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 13 जनवरी 2005

सं. ए-32013/एस.एम./2002/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री मोआवती, भण्डार अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भण्डार प्रबंधक के पद पर इसी विभाग में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 01.11.2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 18 जनवरी 2005

सं. 98ए/ए-19011(4-एल.सी.पी.)/97/19बी--श्री लखी चरण पाहन द्वारा व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 28.07.2004 (अपराह्न) से वेधन अभिरंता (कनिष्ठ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पद से त्यागपत्र देने तथा उसे महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विधिवत स्वीकार करने पर श्री लखी चरण पाहन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से दिनांक 28.07.2004 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 25 जनवरी 2005

सं. 257सी/ए-32013/सहा.भूवै./2004/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूविज्ञान) की पदोन्नति पर सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के पद पर नियुक्ति इसी विभाग में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
01.	श्री ए. पी. थपलियाल	28.09.2004 (अपराह्न)
02.	श्री ए. बालूक्कारासु	28.09.2004 (अपराह्न)
03.	श्री एन. गोस्वामी	28.09.2004 (अपराह्न)
04.	श्री तदूरू नागराज	28.09.2004 (अपराह्न)

1	2	3
05.	श्री एन. के. सिंघु	28.09.2004 (अपराह)
06.	श्री पी. महादेवप्पा	28.09.2004 (अपराह)
07.	श्री विवेक शर्मा	29.09.2004 (पूर्वाह)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 18 जनवरी 2005

सं. 4-330/2004/स्थापना--निदेशक (प्रभारी), भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, सहर्ष इस सर्वेक्षण के सम्बद्ध फील्ड स्टेशन पांडिचेरी के श्री सी. रघू, अनुसंधान सहयोगी (सां.) को इस सर्वेक्षण के दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, मैसूर में सहायक मानवविज्ञानी (सां.), गुप-बो (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- के पद पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

लोक नाथ सोनी
कार्यालय अध्यक्ष

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 17 जनवरी 2005

सं. स्था.-I-ए/220--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदभार छोड़ने के पद का नाम	पदभार छोड़ने की तिथि	कारण
1	2	3	4	5
01.	श्री बेलुतुरी धना राव	वैज्ञा. अधि./डी	31.08.2004	अधिवर्षिता
02.	श्री चंद्रकांत लीलाराम लाला	वैज्ञा. अधि./सी	01.11.2004	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
03.	डॉ. (श्रीमती) जम्मादा पोन्मा मन्वीया	वैज्ञा. अधि./जी	02.11.2004	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
04.	श्री पुष्पीयमपालाथील नारायणन सनाथनन	वैज्ञा. अधि./ई	05.11.2004	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
05.	श्री रॉबिन मॅथ्यू	वैज्ञा. अधि./सी	19.11.2004	त्यागपत्र
06.	श्री रोश शीलु भारद्वाज रेणुकुल्ला	वैज्ञा. अधि./सी	31.10.2004	अधिवर्षिता
07.	डॉ. भुवन चंद्र भट्ट	वैज्ञा. अधि./एच	30.11.2004	अधिवर्षिता

1	2	3	4	5
08.	श्री वेमुरी वकेंट रामकृष्णा	वैज्ञा. अधि./जी	30.11.2004	अधिवर्षिता
09.	श्री ठदय भान त्रिपाठी	वैज्ञा. अधि./जी	30.11.2004	अधिवर्षिता
10.	श्री प्रकाश बाबानी कलगुटकर	वैज्ञा. अधि./एच	30.11.2004	अधिवर्षिता
11.	श्री प्रमोद विनायक भागवत	वैज्ञा. अधि./ई	30.11.2004	अधिवर्षिता
12.	श्री विलास श्रीधर पत्की	वैज्ञा. अधि./ई	30.11.2004	अधिवर्षिता
13.	श्री श्रीकांत वामन राठत	वैज्ञा. अधि./ई	30.11.2004	अधिवर्षिता
14.	श्री अनिलकुमार सखाराम कारखनीस	वैज्ञा. अधि./ई	30.11.2004	अधिवर्षिता
15.	डॉ. हरी मोहन	वैज्ञा. अधि./एच	30.11.2004	अधिवर्षिता
16.	श्री चित्तुकुडु हरीहरन	वैज्ञा. अधि./एफ	30.11.2004	अधिवर्षिता
17.	श्री पट्टपटी सत्यानारायणा रेड्डी	वैज्ञा. अधि./जी	30.11.2004	अधिवर्षिता

जी. डी. पुंगले
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 10 जनवरी 2005

सं. 21/9(1)/2003-सीसीएस/01--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री के. बलराज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 01.02.2004 (पूर्वाह) से दिनांक 29.07.2004 (अपराह) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी यूनिट में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

सं. 22/7(1)/2002-सीसीएस/02--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री डी. वी. वानमली, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 05.05.2004 (पूर्वाह) से दिनांक 20.09.2004 (अपराह) तक तदर्थ आधार पर उसी निदेशालय में क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2005

सं. 20/3(1)/2004-सीसीएस/3--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री सी. गोपालकृष्णन, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7,500--12,000/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 29.12.2004 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक सामान्य सेवा संगठन,

तारापुर में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

सं. 21/3(2)/2002-सीसीएस/4--राष्ट्रपति, डॉ. गौतम तालुकदार (आईसीएस-94) को दिनांक 12.10.2004 के पूर्वाह्न से 4 वर्ष की अवधि हेतु अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए भारी पानी बोर्ड, मुम्बई में आंतरिक वित्त सलाहकार (वेतनमान रु. 14,300--18,300/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 13 जनवरी 2005

सं. केट/स्था./592/050--अधिवर्षिता की आयु प्राप्ति के फलस्वरूप डॉ. वी. के. वधावन ने प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में दिनांक दिसम्बर 31, 2004 अपराह्न को उत्कृष्ट वैज्ञानिक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. मोहन बाबू
प्रशासनिक अधिकारी-III

इन्दौर-452013, दिनांक 13 जनवरी 2005

सं. केट/प्रशा./भ-115(भाग-IV)/II--राष्ट्रपति एतद्वारा डॉ. चन्द्रपाल सिंह को दिनांक 28.12.2004 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस. सी. जैन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 14 जनवरी 2005

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)-तृती/2005/79--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री अमिरथम जॉन स्टीफेन, वरिष्ठ लिपिक, भारी पानी संयंत्र (तृतीकोरिन) को दिनांक 23 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 18 जनवरी 2005

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)-के.का./2004/97--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्रीमती दीप्ति सुकुमारन, सहायक लेखाकार, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय); मुम्बई को दिनांक 17 अगस्त, 2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में दिनांक 27 सितम्बर, 2004 (अपराह्न) तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
प्रशासनिक अधिकारी

मुम्बई-400001, दिनांक 17 जनवरी 2005

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/523--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 01.08.2003 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान (रुपये)
सर्वश्री				
01.	के. सरवण कुमार	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई	12000-375-16500
02.	अंशु गुप्ता	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	10000-325-15200
03.	जे. एन. नागराज	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	10000-325-15200
04.	एन. एच. कुलकर्णी	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	10000-325-15200

(श्रीमती) वीणा आर. श्रीनिवास
उप सचिव

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद-121001, दिनांक 13 जनवरी 2005

सं. 12-11/2002-प.एवं गो./सीएच.वै.स्था./320--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'क'--राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निम्नलिखित अधिकारियों ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है तथा तदनुसार उन्हें 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान पर वरिष्ठ जल वैज्ञानिक के पद पर कॉलम सं. (4) एवं (5) में दर्शाई गई तिथि से मूल रूप में नियुक्त किया जाता है :--

क्रम सं.	वरिष्ठ जल वैज्ञानिक (वैज्ञानिक "सी") का नाम	नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूरी करने की तिथि	स्थायित्व की तिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री					
1.	आर. पी. सिंह	25.11.99	24.11.2000	पहले से ही स्थाई	उत्तरांचल क्षेत्र, देहरादून

1	2	3	4	5	6
2.	एस. के. सिन्हा	24.2.2000	23.2.2001	24.2.2001	मुख्यालय फरीदाबाद
3.	एस. सी. बेहेरा	28.2.2000	27.2.2001	पहले से ही स्थाई	द.पू. क्षेत्र, भुवनेश्वर

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. 16/6/2002-(परी/स्थाई)/ई.स्था./556--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'क'--राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निम्नलिखित अधिकारी ने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है एवं तदनुसार उन्हें 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान पर सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर कॉलम सं. (4) एवं (5) पर दर्शाई गई तिथि से मूल रूप में नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	परीक्षा अवधि पूरी करने की तिथि	स्थायित्व की तिथि	तैनाती का वर्तमान स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एन. वर्दराज सहायक कार्यपालक अभियंता	16.9.98	15.9.2000	16.9.2000	प्रभाग-4, चेन्नई

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बारगेन फाइनेन्स लिमिटेड
के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/17690/9262--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बारगेन फाइनेन्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुम कुम मोदी एग्रो प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/5129/9265--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कुम कुम मोदी एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्रेन्ड्स फर्टिलाइजर्स प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/8790/9267--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स फ्रेन्ड्स फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरयू केमिकल्स प्राईवेट-
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/10297/9269--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सरयू केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उरवी इम्पैक्स लिमिटेड
के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/13693/9271--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 31st December 2004

No. A-19014/05/2001-Admn.-I.—On completion of his tenure of central deputation, Shri P. S. Meena, IES (91), stands relieved of his duties as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission w.e.f. 31st December, 2004 (A.N.).

2. Shri P. S. Meena is directed to report to his parent cadre, i.e. Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 7th January 2005

No. P-2519-Admn.-II.—Pursuant to the approval of the competent authority and having been relieved from the PIPMATE, Pondicherry on voluntary repatriation, Shri K. K. Jadhav has rejoined the post of Deputy Director (Examination Reforms) in the office of UPSC w.e.f. the afternoon of 21.12.2004 (21st December 2004).

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 14th January 2005

No. O.II.3570/2005-Pers.-I.—The Government of India has appointed Shri D. Gautam Sawang, IPS (AP : 86) as Deputy Inspector General of Police in CRPF on central deputation initially for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 12.1.2005.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.-I)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
BANK NOTE PRESS

Dewas, the 11th January 2005

No. BNP/C/44/98.—Shri S. K. Dubey, Deputy Works Engineer Grade-I (Mechanical), Bank Note Press, Dewas is appointed to officiate as Assistant Engineer (Mechanical)

on regular basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- (Group-B—Gazetted) in the Bank Note Press, Dewas (M.P.) with effect from 01-01-2005 (F.N.) until further orders.

SUMIT SINHA
Dy. General Manager & HOD

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
DELHI

New Delhi-110002, the 17th January 2005

No. Admn. O.O. No.-125.—Consequent upon his voluntary retirement Shri Suresh Chand Aggarwal, Senior Audit Officer of this Office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the forenoon of 03.03.2005.

His date of birth is 04-05-1948 and date of appointment in Govt. Service is 21.12.1970.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A.&E.),
ORISSA

Bhubaneswar, the 17th January 2005

No. E.O. No. 51/Admn.-I-Con.-4-AAO/1177.—The Accountant General Orissa has been pleased to allow the following Section Officer (Accounts) to officiate in the cadre of Assistant Accounts Officer (Group 'B'—Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date noted against him without prejudice to the claims of his seniors, until further orders :—

Prasanta Kumar Nayak — 03.01.2005 (F.N.)

The Promotion to the cadre of Assistant Accounts Officer is subject to the final decision of Supreme Court/High Court/Central Administrative Tribunal without prejudice to the claims of his seniors.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A.&E.),
KARNATAKA

Bangalore, the 31st December 2004

No. ES-I/A-8/AO/2004-2005/236.—The Principal Accountant General (A. & E.) is pleased to promote Smt. Meenakshi V. K., Assistant Accounts Officer (E. C. No.

19751202) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 31.12.2004 (F.N.) or from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by her for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. ES-I/A-8/2004-2005/237.—The Principal Accountant General (A. & E.) is pleased to promote Smt. Geeta V. Sundaram (E. C. No. 19780907), Section Officer as Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) carrying the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 31.12.2004 (F.N.) or from the date of assuming charge whichever is later without prejudice to the claims of seniors, if any, until further orders.

2. Her pay in Assistant Accounts Officer's scale shall be fixed in accordance with Rule FR 22(I)(a)(1).

3. She will be on probation for a period of two years from the date of taking charge.

4. Option has to be exercised by her for fixation of pay in higher scale in terms of Rule 22(I)(a)(1) within one month from the date of order.

5. The Charge Report in respect of the Officer may be sent to ES-I Section through her Branch Officer.

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

The 3rd January 2005

No. ES-I/A-8/2004-2005/245.—The Accountant General (A. & E.) is pleased to promote the following Section Officers as Assistant Accounts Officers (Group 'B' Gazetted) carrying the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 03-01-2005 (P.N.) (i.e., the first working day of the panel year 2005) or from the date of assuming charge whichever is later without prejudice to the claims of seniors, if any, until further orders :—

Sl. No.	Name	E.C. Number	Remarks
	Shri/Smt.		
01.	Arthur Manokaran, J.	19790705	—
02.	Bhuvanewari, R.	19811102	—

2. Their pay in Assistant Accounts Officer's scale shall be fixed in accordance with Rule FR 22(I)(a)(1). They will be on probation for a period of two years from the date of taking charge.

3. Option has to be exercised by them for fixation of pay in higher scale in terms of Rule FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of order.

4. The Charge Report in respect of the Officers may be sent to ES-I Section through their Branch Officers.

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. ES-I/A-8/2004-2005/244.—The Principal Accountant General (A. & E.) is pleased to promote Smt. Parimala, S. (1) Assistant Accounts Officer (E.C. No. 19700106) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 03.01.2005 (F.N.) (i.e., the first working day of the panel year 2005) or from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by her for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A.&E.), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 10th January 2005

No. WH-I/Estt./205.—Under the orders of the A. G. (A. & E.), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Grade-I are hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions noted against each till further orders. They will be on probation for a period of two years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Smt. Ila Chakraborty
2.	Shri Alok Chaudhuri
3.	Shri Balai Chand Pal
4.	Shri Chanchal Sengupta

The above named Officers may submit their options under FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of taking over charge as Sr. D.A.O. for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE

Dy. Accountant General (A/cs.)

Office Order No. WM-I/Estt./206.—Under orders of the Accountant General (A. & E.), West Bengal dated 06.01.2005, the following Divisional Accounts Officer Grade-I who is now on deputation to the Office of the Hooghly River Bridge Commissioners, Kolkata has been granted proforma promotion as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- w.e.f. the date on which his junior as shown below takes over charge as Senior Divisional Accounts Officer :—

Name of the person granted proforma promotion	Name of his next junior
---	-------------------------

Shri Biswanath Pal-II	Shri Balai Chand Pal
-----------------------	----------------------

All the conditions precedent to the grant of promotion under the "Next below Rules" stood fulfilled in this case and it has been declared that the post held by Shri B. Pal-II now on deputation is outside the ordinary line of service.

On promotion, his pay will be fixed under F.R. 22(I)(a)(i) for which he may exercise his option within one month from the date of issue of this order.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs. & VLC)

The 17th January 2005

OFFICE ORDER

No. WH-I/Estt./212.—Under the orders of the A. G. (A. & E.), West Bengal, the following Divisional Accounts Officer Grade-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present Divisions/division noted against each till further orders. He will be on probation for period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Shri Gaurab Chandra Chatterjee

The above named officer may submit their options under FR 22(i)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 18th January 2005

No. A-19018/1086/91-Admn.(G.).—On attaining the age of superannuation, Shri P. M. Solki, Deputy Director, Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi retired from Government service on the afternoon of 31-12-2004.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

The 20th January 2005

No. A-19018/370/78-Admn.(G.).—The President is pleased to appoint Shri J. K. Arya, Additional Industrial Adviser (Modernisation & Ancillary), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Industrial Adviser (Modernisation & Ancillary) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- in the same office with effect from the forenoon of 14.01.2005 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

KOYLA AUR KHAN MANTRALAYA GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 13th January 2005

No. 72/B/A-32013/SM/2002-19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint Shri Moawati, Stores Officer, Geological Survey of India to the post of Stores Manager on promotion in the same Department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- on regular basis with effect from 01.11.2004 (F.N.), until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

The 18th January 2005

No. 98A/A-19011(4-LCP)/97/19B.—On acceptance of the resignation tendered by Shri Lakhi Charan Pahan, from the post of Drilling Engineer (Jr.), GSI on personal ground with effect from 28.07.2004 (A.N.) duly accepted by the Director General, GSI, Sri Lakhi Charan

Pahan stood released from the GSI with effect from 28.07.2004 (A.N.).

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

The 25th January 2005

No. 257C/A-32013/Asstt. Geol./2004/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to approve the appointment of the following Sr. Technical Assistant (Geology) to the post of Assistant Geologist Grade-I on promotion in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date as mentioned against each on regular basis until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1.	Shri A. P. Thapliyal	28.09.2004 (A.N.)
2.	Shri A. Balukkarasu	28.09.2004 (A.N.)
3.	Shri N. Goswami	28.09.2004 (A.N.)
4.	Shri Tadooru Nagaraj	28.09.2004 (A.N.)
5.	Shri N. K. Sinku	28.09.2004 (A.N.)
6.	Shri P. Mahadevappa	28.09.2004 (A.N.)
7.	Shri Vivek Sharma	29.09.2004 (F.N.)

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

MINISTRY OF CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)
ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 18th January 2005

No. 4-330/2004/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri C. Raghu, Research Associate (Culture) attached to the Pondicherry Field Station to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), Group-B (Gazetted), in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at the Southern Regional Centre, Mysore of this Survey with effect from the forenoon of the 21st December, 2004, until further orders.

LOK NATH SONI
Head of Office

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 17th January 2005

No. Estt. IA/220.—

Sl. No.	Name of the Officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
	S/Shri			
1.	Veluturi Dhana Rao	SO/D	31.08.2004	Superannuation
2.	Chandrakant Lilaram Lala	SO/C	01.11.2004 (F.N.)	Voluntary Retirement
3.	Dr. (Smt.) Jammada Ponnamma Machaiah	SO/G	02.11.2004 (F.N.)	Voluntary Retirement
4.	Puthiyampalathil Narayanan Sanathanan	SO/E	05.11.2004 (F.N.)	Voluntary Retirement
5.	Robin Mathew	SO/C	19.11.2004	Resignation
6.	Shesha Shila Bharadwaj Renukuntla	SO/C	30.11.2004	Resignation
7.	Dr. Bhuwan Chandra Bhatt	SO/H	30.11.2004	Superannuation
8.	Vemuri Venkata Ramakrishna	SO/G	30.11.2004	Superannuation
9.	Uday Bhan Tripathi	SO/G	30.11.2004	Superannuation
10.	Prakash Babani Kalgutkar	SO/H	30.11.2004	Superannuation
11.	Pramod Vinayak Bhagwat	SO/E	30.11.2004	Superannuation
12.	Vilas Shridhar Patki	SO/E	30.11.2004	Superannuation
13.	Shreekant Vaman Raut	SO/E	30.11.2004	Superannuation
14.	Anilkumar Sakharani Kharkhanis	SO/E	30.11.2004	Superannuation
15.	Dr. Hari Mohan	SO/H	30.11.2004	Superannuation
16.	Chithukadu Hariharan	SO/F	30.11.2004	Superannuation
17.	Pattapati Satyanarayana Reddy	SO/G	30.11.2004	Superannuation

G. D. PUNGLE
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 10th January 2005

No. 21/9(1)/2003-CCS/01.—The President is pleased to appoint Shri K. Balraj, Senior Accounts Officer (Scale of

pay of Rs. 8,000—13,500/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad of this Department as Dy. Controller of Accounts (Scale of pay of Rs. 10,000—13,500/-) in the same unit on ad-hoc basis for the period from 01.02.2004 (F.N.) to 29.07.2004 (A.N.).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

No. 22/7(1)/2002-CCS/02.—The President is pleased to appoint Shri D. V. Vanmali, Assistant Purchase Officer (Scale of pay of Rs. 6,500—10,500/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Purchase Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Directorate on ad-hoc basis for the period from 05-05-2004 (F.N.) to 20.09.2004 (A.N.).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

The 19th January 2005

No. 20/3(1)/2004-CCS/Vol.-II/3.—The President is pleased to appoint Shri C. Gopalakrishnan, Administrative Officer-II (Scale of pay of Rs. 7,500—12,000/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the General Services Organisation, Tarapur with effect from the forenoon of 29.12.2004 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

No. 21/3(2)/2002-CCS/4.—The President is pleased to appoint Dr. Gautam Talukdar (ICAS-94) as Internal Financial Adviser (Scale of pay of Rs. 14,300—18,300/-) in Heavy Water Board, Mumbai of this Department with effect from the forenoon of October 12, 2004 for a period of 4 years or until further orders, whichever is earlier.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 13th January 2005

No. CAT/Estt./592/050.—Consequent on attaining the age of superannuation, Dr. V. K. Wadhawan has relinquished the charge of the post of Outstanding Scientist in the Centre

for Advanced Technology, Indore w.e.f. afternoon of December 31, 2004.

P. MOHAN BABU
Administrative Officer-III

Indore-452013, the 13th January 2005

No. CAT/Admn./R-115(Vol.-IV)/II.—The President is pleased to appoint Dr. Chandra Pal Singh as Scientific Officer/D in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 28.12.2004 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

S. C. JAIN
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 14th January 2005

No. HWB/R/5(2)-Tut./2005/79.—Chief Executive, Heavy Water Board (Central Office), appoints Shri Amirtham John Stephen, Senior Clerk, Heavy Water Plant (Tuticorin) to officiate as Assistant Personal Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from September 23, 2004 (Forenoon) to October 22, 2004 (Afternoon).

D. S. RAO
Administrative Officer

The 18th January 2005

No. HWB/R/5(2)-CO/2004/97.—Chief Executive, Heavy Water Board (Central Office), appoints Smt. Dēpti Sukumaran, Assistant Accountant, Heavy Water Board (Central Office), Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the same office on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from August 17, 2004 (F.N.) to September 27, 2004 (A.N.).

D. S. RAO
Administrative Officer

SERVICE UNITS SECTION

Mumbai-400001, the 17th January 2005

No. 7/2(1)/2004-SUS/523.—The President is pleased to appoint the following officers in the Directorate of

Construction, Services & Estate Management of this Department, on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 01.08.2004 (F.N.) until further orders :—

Sr. No.	Name	Present Grade	Grade on promotion	Scale of pay (Rs.)
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	K. Saravana Kumar	SO/D	SO/E	12000-375-16500
2.	Anshu Gupta	SO/C	SO/D	10000-325-15200
3.	J. N. Nagraj	SO/C	SO/D	10000-325-15200
4.	N. H. Kulkarni	SO/C	SO/D	10000-325-15200

(Smt.) VEENA R. SRINIVAS
Dy. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES
CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad-121001, the 13th January 2005

No. 12-11/2002-Prob. & Conf./CH-Sci.Esst./320.—On the recommendation of DPC (Group-A Gazetted) and approval of the competent authority, the following Officers have completed their probationary period satisfactorily and subsequently appointed as substantively as Senior Hydrologist in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the date shown in Col. No. (4) & (5) :—

Sl. No.	Name of the Senior Hydrologist (Sc-C)	Date of Appointment/promotion	Date of Completion of Probation period	Date of permanency	Present place of posting
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	R. P. Singh	25.11.1999	24.11.2000	Already Pmt.	UR, Dehradun
2.	S. K. Sinha	24.2.2000	23.2.2001	24.2.2001	CHQ, Faridabad
3.	S. C. Behera	28.2.2000	27.2.2001	Already Pmt.	SER, Bhubneshwar

S. K. SINHA
Director (Admn.)

The 20th January 2005

No. 16-6/2002-(Prob./Confirm.)/Engg.Esst./556.—On the recommendations of DPC Group 'A' (Gazetted) and on the

approval of the competent authority, the following officer have completed his probationary period satisfactorily and subsequently appointed substantively as Assistant Executive Engineer in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- w.e.f. from the date shown in Col. (4) & (5) :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Appointment/promotion	Date of Completion of Probation period	Date of Confirmation	Present place of posting
1	2	3	4	5	6
1.	Shri N. Varadraj, Asstt. Executive Engineer	16.9.1998	15.9.2000	16.9.2000	Div.-IV, Chennai

S. K. SINHA
Director (Admn.)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bargain Finance Limited

Kanpur-208001, the 20th January 2005

No. 560(3)/LC/17690/9262.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bargain Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kum Kum Modi Agro Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/5129/9265.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kum Kum Modi Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Fertilizers Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/8790/9267.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Friends Fertilizers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saryu Chemicals Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/10297/9269.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Saryu Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Urvi Impex Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/13693/9271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Urvi Impex Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Infra Engineers & Planners (India) Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/26480/9273.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date hereof, the name of M/s. Infra Engineers & Planners (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leader Remedies Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/9873/9275.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Leader Remedies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. G. Distributors Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/14704/9277.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. R. G. Distributors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unity Air Conditioning Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/24572/9279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Unity Air Conditioning Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alinda Leather Industries Private Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/8732/9281.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Alinda Leather Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indica Sales Limited

Kanpur-208001, the 24th January 2005

No. 560(3)/LC/24218/9283.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Indica Sales Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal